



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष 1945 (श10)  
(सं0 पटना 1040) पटना, शुक्रवार, 29 दिसम्बर 2023

सं० एल/एच०जी०-14-04/2022-14589

गृह विभाग  
(विशेष शाखा)

संकल्प

28 दिसम्बर 2023

श्री अनिरुद्ध प्रसाद, तत्कालीन वरीय जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशमन पदाधिकारी, पटना सम्प्रति वरीय जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, दरभंगा के विरुद्ध उनके पटना पदस्थापन अवधि के दौरान कर्तव्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही, संवेदनहीनता एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन संबंधी आरोप, साक्ष्य सहित प्रपत्र 'क' में महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4110 दिनांक-04.08.2022 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

2. आरोप प्रपत्र 'क' में अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक- 10603, दिनांक-15.09.2022 द्वारा श्री अनिरुद्ध प्रसाद, वरीय जिला समादेष्टा के विरुद्ध गठित आरोप प्रपत्र 'क' की प्रति संलग्न कर भेजते हुए पत्र प्राप्ति के एक पक्ष (15 दिनों) के अंदर बचाव का लिखित अभिकथन विभाग को प्रस्तुत किये जाने का निदेश श्री प्रसाद को दिया गया।

3. श्री अनिरुद्ध प्रसाद द्वारा कार्यालय, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, दरभंगा के पत्रांक-18/गो०, दिनांक- 12.06.2023 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' के विरुद्ध बचाव का लिखित अभिकथन बिन्दुवार विभाग को उपलब्ध कराया गया।

4. विभागीय पत्रांक-7884, दिनांक-28.06.2023 द्वारा श्री अनिरुद्ध प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण की छायाप्रति महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को भेजते हुए उक्त स्पष्टीकरण पर बिन्दुवार मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

5. महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-6953, दिनांक-17.10.2023 द्वारा श्री अनिरुद्ध प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होने संबंधी मंतव्य प्रतिवेदित किया गया है।

6. अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री अनिरुद्ध प्रसाद के विरुद्ध गठित प्रपत्र-'क' की वृहद् जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही

संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। एतद् हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा उपस्थापन पदाधिकारी नामित करने के लिए महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अनिमेश पाण्डेय,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1040-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>